



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157]
No. 157]

नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, अगस्त 3, 1978/श्रावण 12, 1900
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 1978/SRAVANA 12, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सव्या-58-आई०टी०सी० (पीएन)/78

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय : डोडेसिल बेन्जीन/लिनियर ऐल्किल बेन्जीन का आयात

मि०स० आई०पी०सी० 65/5/78-79 --आयात नीति 1978-79 के परिशिष्ट 8 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसकी शर्तों के अनुसार मद लिनियर ऐल्किल बेन्जीन/डोडेसिल बेन्जीन का आयात भारतीय राज्य रसायन एवं कामिष्ट्रिकल निगम लिमिटेड (सी पी सी) के माध्यम से सरणीबद्ध है। पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को अपनी जरूरतों को शीघ्रता-भिन्न पूरा करने में सामग्री आयात करने के लिए समर्थ हो सके, इसलिए यह निश्चय किया गया है कि

(क) लिनियर ऐल्किल बेन्जीन (नर्म) और डी०टी०बी० (ओरोनाइट-60) को 31 दिसम्बर, 1978 तक की सुपुर्दगी के लिए सरणीबद्ध अभिकरण के पाम पंजीकृत तत्संबंधी शेष रही जरूरतों की सीमा तक उसी अवधि के लिए सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा पहले से ही तय की गई संविदा को घटा कर, वे सीधे ही आयात कर सकते हैं; और

(ख) वे पात्र वास्तविक उपयोक्ता जो डोडोसिल बेन्जीन (ओरोनाइट-56) को सीधे आयात करने की व्यवस्था करने की स्थिति में हैं उन्हें लिनियर ऐल्किल बेन्जीन के उसी किस्म के सेट का मासिक सीमा तक ऐसा करने की अनुमति होगी लेकिन, यह इस अतिरिक्त शर्त के अधीन होगी कि उस प्रकार किए गए

आयात का 25 प्रतिशत लागत और उच्च समुद्री बिक्री के आधार पर सरणीबद्ध अभिकरण की लघु पैमाना क्षेत्र को वितरण के लिए हस्तान्तरित किया जाएगा।

3. जो वास्तविक उपयोक्ता उपर्युक्त सीधे आयात की सुविधा का फायदा उठाने के इच्छुक हैं वे मात्रा के विशेष ब्योरो साथ सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण के पास पहुंचें कि वे 31-12-1978 को या 14 अगस्त 1978 से पूर्व सीधे आयात करने की स्थिति में है जिससे कि बाद वाला उनके नाम में आवश्यक मासिक निकासी जारी कर सके।

4. क्षेत्रीय साइनेस प्राधिकारियों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है, कि सरणीबद्ध अभिकरण से उपर्युक्त प्रमाण पत्र और सामग्री के सीधे आयात के लिए विदेशी संभरकों के साथ की गई पक्की संविदा के साथ सहित, वास्तविक उपयोक्ताओं के सम्बद्ध आवेदन पत्रों का निपटान करे।

का० वे० शेषाद्वि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES
& COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 58-ITC(PN)/78

New Delhi, the 3rd August, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Import of Dodecyl Benzene/Linear Alkyl Benzene.

F. No. IPC/65/5/78-79.—Attention is invited to Appendix 8 of Import Policy, 1978-79 in terms of which the item Linear Alkyl Benzene/Dodecyl Benzene is canalised for import through State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of

India Limited (CPC). In order to enable the eligible Actual Users to import the material as expeditiously as possible for meeting their requirements, it has been decided that—

- (a) Linear Alkyl Benzene (Soft) and DDB (Oronite-60) may be imported directly by them upto the limit of the respective unserviced requirements registered with the canalising agency for delivery upto 31st December, 1978, less the contracts already concluded by the canalising agency for the same period; and
- (b) Eligible Actual Users, who are in a position to arrange direct imports of Dodecyl Benzene (Oronite-56) will also be allowed to do so upto the quantitative limit of the same type set for Linear Alkyl Benzene but subject to the additional condition that 25 per cent of the imports so made shall be transferred by them

at cost and on high sea sale basis to the canalising agency for distribution to Small Scale Sector.

3. Actual Users desirous of availing themselves of the above facilities of direct import may approach the canalising agency with specific details of the quantities that they are in a position to import directly upto 31-12-1978 on or before August 14, 1978 so that the latter can issue necessary quantitative clearances in their Favour.

4. The regional Licensing Authorities have already been advised to dispose of the connected applications from the Actual Users, supported by the above certificates from the canalising agency and evidence of firm contract with the overseas suppliers for direct import of the materials.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports